

डीप फेक में नैतिक दुवधियाँ

तेज़ी से तकनीकी प्रगति कर रहे इस युग में, जेनरेटिव एआई अत्यधिक ठोस और यथार्थवादी कॉन्टेंट बनाने की क्षमता के साथ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, जिसके चलते अक्सर वास्तविकता और बनावट के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। डीप फेक, जो जेनरेटिव एआई का ही एक रूप है, ने दुरुपयोग की अपनी क्षमता के कारण नैतिक चलाएँ बढ़ा दी हैं। इसने न केवल सरकारों बल्कि सिविल सेवकों के लिये भी इसे वनियमिति करने और इसमें शामिल नैतिक दुवधियों का समाधान करने के क्रम में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं, जिन्हें नमिनलखिति घटना के माध्यम से सटीक रूप से समझा जा सकता है।

एक प्रमुख चुनाव के लिये राजनीतिक अभियान चल रहा है और उम्मीदवार मतदाताओं से जुड़ने के लिये विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में, उन्नत तकनीकी कौशल वाली एक अज्ञात इकाई जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को प्रदर्शित करते हुए अत्यधिक यथार्थवादी डीप फेक वीडियो बनाती है। ये वीडियो जो कि पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, लोगों को इस प्रकार चतुरि करते हैं कि वे अनैतिक और अवैध गतिविधियों में शामिल प्रतीत होते हैं। डीप फेक को रणनीतिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जो व्यापक रूप से लोगों की धारणा तथा राजनीतिक परदृश्य को प्रभावित करता है।

वपिक्षी उम्मीदवारों के बारे में गलत आख्यान बनाने के बावजूद, ये डीप फेक वीडियो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रदत्त वधियाँ एवं संवेधानिक सुरक्षा उपायों के वपिरीत हैं तथा सीधे तौर पर मज़बूत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व चुनावी तंत्र के वरिद्ध हैं। इसके अलावा, यह आदर्श आचार संहिता द्वारा लागू किये गए दायित्वों को भी नज़रअंदाज़ करता है तथा जनता के महत्त्वाकांक्षी प्रतिनिधियों की व्यक्तित्व एवं पेशेवर नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

उपरोक्त घटना के संदर्भ में, जेनरेटिव एआई और डीप फेक प्रौद्योगिकियों में नहिनि नैतिक दुवधि को संबोधित करने में सिविल सेवाओं की भूमिका का आकलन करें।